



भारत सरकार / Government of India
अंतरिक्ष विभाग / Department of Space
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र / VIKRAM SARABHAI SPACE CENTRE
तिरुवनंतपुरम / Thiruvananthapuram 695 022

विज्ञापन सं. वीएसएससी - 287
ADVERTISEMENT NO.VSSC - 287

दिनांक 25.07.2014
DATED 25.07.2014

एसपीएल में शोध सहयोगीवृत्ति के लिए आवेदन
APPLICATIONS FOR RESEARCH ASSOCIATESHIP AT SPL

रिक्तियों की संख्या / NO OF POSITIONS: 7

इसरो की प्रमुख संस्थाओं में से एक में अग्रणी अनुसंधान क्षेत्रों में कार्य करने हेतु आमंत्रण!

A call to work in frontline research areas in one of the premier Research Institutions of ISRO !

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), तिरुवनंतपुरम की अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला (एसपीएल) में शोध सहयोगियों के पद हेतु ई-मेल आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्र अभ्यर्थी वर्ष के दौरान किसी भी समय निदेशक, एसपीएल को ई-मेल द्वारा आवेदन दे सकते हैं। पात्रता, आवेदन की प्रक्रियाओं तथा अनुसंधान के क्षेत्रों के बारे में अधिक ब्यौरे के लिए कृपया <http://www.vssc.gov.in> या <http://www.isro.gov.in> देखें।

E-mail applications are invited for the position of Research Associates in the Space Physics Laboratory (SPL) of the Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC), Indian Space Research Organization (ISRO), Thiruvananthapuram. Eligible candidates can apply any time of the year by e-mail to **The Director**, SPL. For more details on eligibility, application procedures, and areas of research, please visit <http://www.vssc.gov.in> or <http://www.isro.gov.in>



सत्यमेव जयते

Earth System Science Organisation (ESSO)

Ministry of Earth Sciences (MoES)
Government of India

Call for Proposals on 'Earth System Science Programs'

The Earth System Science Organization, Ministry of Earth Sciences (ESSO, MoES) has a mandate to develop and support research programmes that lead to major advances in basic and applied sciences in the broad field of Earth System Sciences. This initiative also encompasses capacity building, and the creation and development of institutions/centres of excellence/national facilities for research and education in Earth System Sciences. The Ministry, to achieve this overarching goal, is supported by specialized advisory committees of eminent scientists on various components of Earth System, that include Geosciences, Atmospheric Sciences, Cryosphere and Hydrology, Ocean and Marine Sciences, and Geotechnology. These committees identify, encourage and monitor research programmes that addresses to the above overall vision of the Ministry. The success of this initiative is critically dependant on front ranking research proposals. Keeping this in view, the ESSO, MoES invites proposals for scientific research, brainstorming for the development of new and novel coordinated research programmes with scientific merit and national implications, and for the development of centres of excellence in research and training.

Proposals in the prescribed format may be submitted to

Office of Program Head (R&D in Earth and Atmospheric Sciences), Ministry of Earth Sciences, Prithvi Bhavan, Opp. India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi 110 003, India
Ph: 91-11-2466 9514; Fax: 91-11-2466 9577

Detail information, prescribed format, guidelines and terms and conditions are available at <http://dod.nic.in/RND/rnd.html>

The proposals can be submitted at any time.